



# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन )

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/निदे.(शैक्ष.)/2021

24 नवम्बर, 2021

परिपत्र संख्या: शैक्ष.-119/2021

सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रमुख

विषय: आजादी का अमृत महोत्सव: डीओएसईएल – डीओपी 75 लाख पोस्ट कार्ड अभियान

प्रिय प्रधानाचार्य,

आजादी का अमृत महोत्सव (अकम) के चल रहे समारोह के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित विवरण के अनुसार डाक विभाग (डीओपी), संचार मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के साथ, '75 लाख पोस्ट कार्ड अभियान' का प्रस्ताव है:

i. अभियान की तिथियां : 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2021 तक

ii. भागीदारी: सीबीएसई के साथ-साथ राज्य बोर्डों से संबद्ध सभी स्कूलों के कक्षा 4 से 12 वीं के छात्र अभियान में भाग ले सकते हैं।

iii. क्या करना होगा?

छात्रों को दो विषयों में से किसी एक पर पोस्ट कार्ड लिखना होगा - " स्वतंत्रता संग्राम के अकीर्तित नायक" और " 2047 में भारत के लिए मेरी परिकल्पना"।

iv. पोस्ट कार्ड की उपलब्धता:

- पोस्ट कार्ड संबंधित स्कूलों के स्थानीय डाकघर में उपलब्ध होंगे। डाक विभाग (डीओपी) अभियान में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक पोस्ट कार्ड पर एक रबर स्टैम्प वाला पता लगाएगा। पोस्ट कार्ड भारत के माननीय प्रधान मंत्री, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011 को संबोधित किए जाएंगे।
- स्थानीय डाक प्राधिकरण और स्कूल छात्रों के लिए पोस्ट कार्ड की व्यवस्था करने के लिए समन्वय करेंगे।
- स्कूल/छात्र पोस्टकार्ड 50 पैसे प्रति पोस्ट कार्ड की दर से खरीद सकते हैं।

v. स्कूल प्रमुखों की भूमिका: स्कूल प्रमुख :



'शिक्षा सदन', 71 राजूज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110002

'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002





# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन )

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

- स्कूल के सभी छात्रों के लिए स्थानीय डाकघर के माध्यम से पोस्ट कार्ड की व्यवस्था करेंगे। वे स्थानीय डाकघर के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
- अभियान की दी गई तिथियों के दौरान किसी भी दिन अपने-अपने स्कूलों में पोस्ट कार्ड लेखन अभियान का आयोजन करेंगे।
- छात्रों द्वारा लिखे गए सभी पोस्ट कार्डों की स्क्रीनिंग आयोजित करेंगे।
- सर्वोत्तम विचारों वाले अधिकतम 10 पोस्ट कार्डों को शॉर्टलिस्ट करेंगे।
- सीबीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए सीबीएसई पोर्टल पर इन 10 पोस्ट कार्डों को स्कैन करके अपलोड करेंगे।
- पोस्ट कार्ड स्थानीय डाक प्राधिकरणों को सौंप देंगे, जो इसे एक विशेष बैग के माध्यम से निर्माण भवन डाकघर, नई दिल्ली को भेजेंगे।

vi. भाषा: पोस्ट कार्ड हिंदी/अंग्रेजी/किसी भी अनुसूचित भाषा में लिखे जा सकते हैं।

vii. विदेशों में स्थित सीबीएसई स्कूलों के लिए भागीदारी के दिशानिर्देश:

- विदेश में स्थित सभी सीबीएसई स्कूलों के लिए, डाक विभाग प्रत्येक स्कूल के लिए पते वाले पोस्ट कार्ड वाले पैकेट तैयार करेगा और उन्हें जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली से श्रेणी 'ए' डिप्लोमैटिक बैग के माध्यम से विदेश में संबंधित मिशनों को भेजेगा।
- इन बैगों को श्रेणी 'ए' डिप्लोमैटिक बैग के माध्यम से भारत में फिर से भेजने के लिए स्कूलों से वापस एकत्र किया जाएगा।


viii. राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई क्षेत्रों से 320 सर्वश्रेष्ठ पोस्ट कार्ड का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सर्वोत्तम पोस्ट कार्डों के साथ इनका सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

ix. राष्ट्रीय स्तर पर 75 सर्वश्रेष्ठ पोस्टकार्ड का चयन किया जाएगा। जनवरी, 2022 के तीसरे या चौथे सप्ताह में होने वाले अंतिम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 75 प्रविष्टियों की सूची डाक विभाग को भेजी जाएगी।

किसी भी जानकारी के लिए आप [cbsepsc2021@gmail.com](mailto:cbsepsc2021@gmail.com) पर ई-मेल कर सकते हैं।

आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी का प्रसार शिक्षकों और अपने स्कूल के मध्य करें और इस परियोजना में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें।

शुभकामनाओं सहित।

  
डॉ. जोसफ इमानुएल



'शिक्षा सदन', 71 राजूज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110002

'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002





# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन )

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

निदेशक (शैक्षणिक)

नीचे उल्लिखित सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रति।

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नोएडा 201309
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, ए - विंग, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001
4. संयुक्त सचिव (बीआर/सीईआर/सैनिक स्कूल), सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा नंबर 108 (आई), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन (ओएवीएस), एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा- 751005।
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054
7. लोक निर्देश निदेशक (विद्यालय), संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
9. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
10. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
11. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई., सीबीएसई सेल, वीआईपी रोड, जंगली घाट, पी.ओ. 744103, अंडमान और निकोबार द्वीप
12. निदेशक, केंद्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी
13. सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली - 110001
14. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (ए पी एस के पास), दिल्ली कैंट -110010
15. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों के बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को भेजने के अनुरोध के साथ।
16. सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव / सहायक सचिव / विश्लेषक, सीबीएसई
17. सभी प्रमुखों/ प्रभारियों, उत्कृष्टता केंद्र, सीबीएसई
18. प्रभारी आईटी एकक को सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने



‘शिक्षा सदन’, 71 राज्ज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110002

‘Shiksha Sadan’, 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002





# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन )

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

के अनुरोध के साथ

19. प्रभारी, पुस्तकालय
20. प्रमुख (मीडिया और जन संपर्क), सीबीएसई
21. अध्यक्ष, सीबीएसई के उप सचिव
22. सचिव, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (सूचना प्रयोगिकी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
25. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
26. निदेशक (कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
27. निदेशक (व्यावसायिक परीक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
28. निदेशक (सीटीईटी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
29. निदेशक (एडुसेट), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
30. रिकॉर्ड मिसिल

निदेशक (शैक्षणिक)

नोट : हिंदी परिपत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी परिपत्र को अंतिम माना जाए।



‘शिक्षा सदन’, 71 राऊज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110002

‘Shiksha Sadan’, 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002

